



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 336] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 1977/कार्तिक 6, 1899

No. 336] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 1977/KARTIKA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

### ORDER

New Delhi, the 28th October 1977

**G.S.R. 656(E).**—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1965), the Central Government hereby makes the following Order in relation to the apportionment of the assets, rights and liabilities of the State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) for the State of Punjab as it existed immediately before the appointed day, namely—

**1 Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Punjab State Warehousing Corporation (Apportionment of assets, rights and liabilities) Order, 1977

(2) It shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1967

**2 Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise require,—

- (a) "Act" means the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962);
- (b) "appointed day" for the purposes of this Order, means the 1st day of November, 1967,
- (c) "Corporation" means the State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) for the State of Punjab as it existed immediately before the appointed day;

- (d) "population ratio", in relation to the State of Punjab and the State of Haryana and the Union territory of Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh, means the ratio of—

Punjab	54.84
Haryana	37.38
Himachal Pradesh	7.19
Chandigarh	0.59

3 **Balance Sheet**--The details given in the balance sheet of the Corporation as on the 31st October, 1967 shall constitute the audited assets and liabilities of the Corporation

4 **Share capital**--(1) The share capital of the Corporation shall be divided among the States of Punjab and Haryana and the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh in the population ratio. After the share capital is so divided, the share of the Union territory of Chandigarh and the Union territory of Himachal Pradesh shall be kept in suspense account in the State of Punjab and on the establishment of a State Warehousing Corporation in the Union territory of Chandigarh or in the Union territory of Himachal Pradesh, its share shall be transferred to the Corporation so established in that Union territory.

(2) The share capital invested by the Central Warehousing Corporation shall be deemed to have been transferred on the . . . . . the States of Punjab and Haryana on the basis of population ratio . . . . . to the Central Warehousing Corporation their matching contribution . . . . . of the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh

5 **Staff**.—Every employee of the Corporation working in a warehousing centre situated in the State of Punjab or the State of Haryana shall stand transferred to that State on the same terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Order

Provided that the States of Punjab and Haryana shall work out an arrangement by mutual agreement, for allocation of employees working in the Head Office of the Corporation at Chandigarh

6 **Assets and liabilities**—The assets and liabilities of the Corporation, other than those mentioned in clauses 4 and 5, shall be distributed amongst the States of Punjab and Haryana and the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh on population ratio basis or on location basis as on the appointed day, as specified below—

(a) *On population basis*

- (i) Statutory reserve fund and accumulated profits.
- (ii) Rent of the Head Office building of the Corporation
- (iii) Fee of Income Tax Adviser and audit fee payable and insurance charges
- (iv) Loss due to embezzlement at the warehouse located at Sultanpur Lodhi
- (v) Moveable assets including equipment, furniture, insecticides and chemicals, stationery and judicial stamps at the Head Office of the Corporation
- (vi) Refund of income tax and insurance prepaid.
- (vii) Any other advances, assets, or liabilities relatable to the Head Office of the Corporation

(b) *On location basis*:

- (i) Rent of godowns, offices and warehousing centres.
- (ii) Bills and licence fees payable for warehousing centres
- (iii) Immovable assets including land and building for each warehousing centre, subject to suitable adjustment being made taking into consideration the amount due to State of Punjab and the State of Haryana and value of the capital assets located in that State
- (iv) Movable assets including equipment, furniture, insecticides and chemicals stationery and judicial stamps relatable to individual warehousing centre.

- (v) Storage charges and expenses recoverable
- (vi) Cash in hand and the bank balances held by the warehousing centres.
- (vii) Any other advances relatable to the warehousing centres
- (viii) Any other charges arising out of claims against the Corporation
- (c) The land at Chandigarh for the construction of the Head Office Building for the Corporation shall be transferred to the State of Punjab and the amount already spent on the same by the Corporation may be adjusted against the cash balances due to that State
- (d) The Staff car of the Corporation shall be allotted to the State of Punjab at its depreciated value
- (e) The cash in hand including deposits in banks at the Head Office of the Corporation shall be utilised to match the assets with the liabilities in respect of each of the States of Punjab and Haryana and the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh after dividing the assets and liabilities among the said States and the Union territories

**7. Overall financial adjustment.**—The division of assets and liabilities mentioned in clauses 4 and 6 shall be subject to overall financial adjustment among the States of Punjab and Haryana and the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh in such manner that the net assets, that is to say, the excess of assets over liabilities, shall accrue to them in the population ratio

**8 Accounts.**—The account books of the Corporation and all other relevant records upto the 31st October, 1967 shall continue to be maintained by the State of Punjab

**9. Joint reserve fund.**—(1) In order to meet the known or unknown liabilities of the Corporation, an amount to be mutually agreed by the States of Punjab and Haryana shall be set aside out of the divisible cash balance as joint reserve fund and the State of Punjab shall operate this fund in consultation with the State of Haryana and maintain the accounts thereof. The State of Haryana shall re-imburse its share of the liabilities of the Corporation to the State of Punjab which may arise after the final division of assets and liabilities in accordance with this Order, if the joint reserve fund is not sufficient to discharge these liabilities

(2) The State of Punjab shall also take necessary action to recover the sums due to the Corporation immediately before the appointed day (which are not relatable to the warehousing centres).

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

Under section 67 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, the assets, rights and liabilities of the erstwhile Punjab State warehousing Corporation were required to be apportioned between the successor States in such manner as may be agreed upon among them within one year of the dissolution of the Corporation or if no agreement is reached, in such manner as the Central Government may by order determine. The erstwhile Punjab State Warehousing Corporation stood dissolved on 1st November, 1967. The successor States of Punjab and Haryana and the Union territory of Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh have not however come to an agreement upon the apportionment of assets, rights and liabilities within one year, namely, by 1st November, 1968. Accordingly, the Central Government are issuing the Order and have decided to give effect to the provisions contained in this Order from 1st November, 1967 in terms of the provisions of section 67 of the Act. The interests of any party are not prejudicially affected by the proposed retrospective effect.

[No F. 25-3/65-SG]

KAMALA PRASAD, Jt Secy.

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

### (खाद्य विभाग)

#### आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1977

का० आ० 656(अ) —केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1965 का 35) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन पंजाब राज्य के लिए जैसा कि वह नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान था, स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों के प्रभाजन के सम्बन्ध में, के लिए निम्नलिखित आदेश बनाना है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम (आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन) आदेश, 1977 है।

(2) यह 1 नवम्बर, 1967 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है "भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) ;

(ख) 'नियत दिन' से, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, अभिप्रेत है, 1 नवम्बर, 1967;

(ग) 'निगम' से अभिप्रेत है भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन, पंजाब राज्य के लिए, जैसा कि वह नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान था, स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम;

(घ) पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में 'जनसंख्या अनुपात' से, निम्नलिखित अनुपात अभिप्रेत है :—

पंजाब	.	.	.	.	.	54.84
हरियाणा	.	.	.	.	.	37.38
हिमाचल प्रदेश	.	.	.	.	.	7.19
चण्डीगढ़	.	.	.	.	.	0.59

3. तुलन पत्र.—निगम के तुलन-पत्र में दिए गए व्योरो से, जैसे कि वे 31 अक्टूबर, 1967 को थे, निगम की लेखापरीक्षित आस्तिया और दायित्व गठित होंगे।

4. शेयर-पूँजी.—(1) निगम की शेयर पूँजी, पंजाब और हरियाणा राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात से बाँट दी जायगी। शेयर पूँजी के इस प्रकार विभाजित हो चुकने के पश्चात् चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र का अंश पंजाब राज्य के निलम्बित लेखों में रखा जाएगा और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश संघ राज्य भाण्डागारण निगम के स्थापन पर उसका शोधर उस संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित निगम को अन्तर्हित कर दिया जाएगा।

(2) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा विनिर्दिष्ट शेयर पूंजी पंजाब और हरियाणा राज्यों को, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ सच राज्य क्षेत्रों के शेयर का, उनके अनुरूप अशदान का प्रतिदाय केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को करने के पश्चात्, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, नियत दिन को अन्तरित कर दी गई समझी जाएगी।

5. **कर्मचारिबुन्द.**—पंजाब राज्य या हरियाणा राज्य में स्थित किसी भाण्डागारण केन्द्र में कार्य करने वाला निगम का प्रत्येक कर्मचारी उसी राज्य को, उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर स्थानान्तरित समझा जाएगा जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व उसे लागू थी :

परन्तु पंजाब और हरियाणा के राज्य निगम के चण्डीगढ़ मुख्य कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आर्बटन के लिए, परस्पर करार द्वारा, कोई व्यवस्था करेंगे।

6. **आस्तियाँ और दायित्व.**—खण्ड 4 और 5 में उल्लिखित से भिन्न निगम की आस्तियाँ और दायित्व, जनसंख्या अनुपात के आधार पर या नियत दिन को आस्थिति के आधार पर, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ सच राज्य क्षेत्रों में नीचे विनिर्दिष्ट रूप में वितरित कर दिए जायेंगे:—

[(क) जनसंख्या के आधार पर :

- (i) कानूनी आरक्षित निधि और संचित लाभ।
- (ii) निगम के मुख्य-कार्यालय भवन का किराया।
- (iii) आयकर सलाहकार की फीस और लेखा-परीक्षा की संदेय फीस और बीमा प्रभार।
- (iv) मुल्तानपुर लोधी में स्थित भाण्डागार में गबन के कारण हानि।
- (v) निगम के मुख्य कार्यालय में जगम आस्तियाँ, जिसमें उपस्कर, फर्नीचर, कीटनाशिकार और रसायन, लेखन सामग्री और जुडीशियल स्टाम्प शामिल हैं।
- (vi) पूर्व सदत्त आयकर और बीमा का प्रतिदाय।
- (vii) निगम के मुख्य कार्यालय में सम्बन्धित कोई अन्य अग्रिम, आस्तियाँ या दायित्व।

(ख) आस्थिति के आधार पर :

- (i) गोदामों, कार्यालयों और भाण्डागारण केन्द्रों का किराया।
- (ii) भाण्डागारण केन्द्रों के लिए संदेय बिल और अनुज्ञप्ति फीस।
- (iii) पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य को देय रकम और उस राज्य में स्थित पूंजी परिसम्पत्ति के मूल्य का ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त समायोजन किए जाने के अधीन रहते हुए स्थावर आस्तियाँ, जिसमें प्रत्येक भाण्डागारण केन्द्र के लिए भूमि और भवन सम्मिलित हैं।
- (iv) प्रत्येक भाण्डागारण केन्द्र में सम्बन्धित जगम आस्तियाँ, जिसमें उपस्कर, फर्नीचर, कीटनाशिकार और रसायन, लेखन-सामग्री और जुडीशियल स्टाम्प सम्मिलित हैं।
- (v) बसूली योग्य भाण्डागारण प्रभार और व्यय।

- (vi) भाण्डागारण केन्द्रों द्वारा धूस रोकड़-शेष और बैंक अतिशेष ।
- (vii) भाण्डागारण केन्द्रों से संबंधित कोई अन्य अग्रिम ।
- (viii) निगम के विरुद्ध दावों से उठने वाले कोई अन्य प्रभार ।
- (ग) निगम के लिए मुख्य कार्यालय भवन के निर्माण के लिए चण्डीगढ़ की भूमि पंजाब राज्य को अन्तर्गत कर दी जाएगी और निगम द्वारा उस पर व्यय की गई रकम, उस राज्य को देय रोकड़ शेष के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है ।
- (घ) निगम की स्टाफ कार पंजाब राज्य को उस के हासित मूल्य पर आबंटित की जायगी ।
- (ङ) निगम के मुख्य कार्यालय में रोकड़-शेष, जिसमें बैंक से निक्षेप सम्मिलित हैं, का उ योग, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ सब राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक की बाबत, उक्त राज्यों और सब राज्य क्षेत्रों में आस्तियों और दायित्वों को बांटने के पश्चात्, आस्तियों को दायित्वों के अनुरूप करने के लिए होगा ।

7. समग्र वित्तीय समायोजन.—पैरा 4 और 6 के अधीन खण्डों में उल्लिखित अस्तियों और दायित्वों का विभाजन, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ सब राज्य क्षेत्रों के मध्य समग्र वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए इस रीति से होगा कि शुद्ध आस्तियां, अर्थात् दायित्वों में आस्तियों का अधिकांश उन्हें जनसंख्या के आधार पर उद्भूत होगा ।

8. लेखे.—निगम की लेखा—पुस्तकें और 31 अक्टूबर, 1967 तक के सभी अन्य सुसंगत अभिलेख पंजाब राज्य द्वारा रखे जाते रहेंगे ।

9. संयुक्त आरक्षित निधि.—(1) निगम के ज्ञात और अज्ञात दायित्वों को पूर्ण करने के लिए, पंजाब और हरियाणा राज्यों में परस्पर करार पाई गई रकम, विभाज्य रोकड़-शेष में से संयुक्त आरक्षित निधि के रूप में पृथक् कर दी जाएंगे और पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य के परामर्श से, इस निधि का चालन करेगा और उसके लेखे रखेगा । हरियाणा, राज्य निगम के दायित्वों के अपने भाग का, जो इस आदेश के अनुसरण में आस्तियों और दायित्वों के अन्तिम विभाजन के पश्चात् उद्भूत हो, यदि संयुक्त आरक्षित निधि इन दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त न हो तो प्रतिपूर्ति पंजाब राज्य को करेगा ।

(2) पंजाब राज्य, नियत दिन से अव्यवहित पूर्व निगम को देय राशियों की (जो भाण्डागारण केन्द्रों से संबंधित नहीं हैं) बमुंबी के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेगा ।

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 67 के अधीन भूतपूर्व पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन उत्तराधिकारी राज्यों में ऐसी रीति से किया जाना था जिस पर निगम के विघटन से एक वर्ष के भीतर उन राज्यों के बीच सहमति हो जाती या यदि सहमति न हो पाती तो ऐसी रीति से किया जाना था जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करें । भूतपूर्व पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम 1 नवम्बर,

1967 को विघटित हो गया था। उत्तराधिकारी राज्य अर्थात्, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ का सघ राज्य क्षेत्र एक वर्ष के भीतर, अर्थात् 1 नवम्बर, 1968 तक, अस्तित्वों, अधिकारों और दायित्वों के प्रभाजन के बारे में सहमत नहीं हो सके थे। तदनुसार केन्द्रीय सरकार एक आदेश निकाल रही है और उसे उसके उपबन्धों को अधिनियम की धारा 67 के अर्थ में, 1 नवम्बर, 1967 से लागू करने का निश्चय किया है। प्रस्तावित भूतलक्षी प्रभाव देने के कारण किसी भी पक्षकार के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० फा० 25-3/65-एस जी]

कमला प्रसाद, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

